

CLASS : 12th (Sr. Secondary)
Series : SS/Annual-2023

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--	--

Code No. 228

SET : C

भौतिक विज्ञान

PHYSICS

C53427

[Hindi and English Medium]

ACADEMIC/OPEN

(Only for Fresh/Re-appear/Improvement/Additional Candidates)

Time allowed : 3 hours

/ Maximum Marks : 70

- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में सुनित पृष्ठ 16 तथा प्रश्न 20 हैं।

Please make sure that the printed pages in this question paper are 16 in number and it contains 20 questions.



- प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिये गये कोड नम्बर तथा सेट को छात्र उत्तर-पुस्तिका के मुख्य-पृष्ठ पर लिखें।

The **Code No.** and **Set** on the right side of the question paper should be written by the candidate on the front page of the answer-book.

- कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।

Before beginning to answer a question, its Serial Number must be written.



- उत्तर-पुस्तिका के बीच में खाली पन्ना/पन्ने न छोड़ें।

Don't leave blank page/pages in your answer-book.

- उत्तर-पुस्तिका के अतिरिक्त कोई अन्य शीट नहीं मिलेगी। अतः आवश्यकतानुसार ही लिखें और लिखा उत्तर न काटें।

Except answer-book, no extra sheet will be given. Write to the point and do not strike the written answer.

- परीक्षार्थी अपना रोल नं० प्रश्न-पत्र पर अवश्य लिखें। रोल नं० के अतिरिक्त प्रश्न-पत्र पर अन्य कुछ भी न लिखें और वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तरों पर किसी प्रकार का निशान न लगाएँ।

Candidates must write their Roll No. on the question paper. Except Roll No. do not write anything on question paper and don't make any mark on answers of objective type questions.



- कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न-पत्र पूर्ण व सही है, परीक्षा के उपरान्त इस सम्बन्ध में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

*Before answering the questions, ensure that you have been supplied the correct and complete question paper, **no claim in this regard, will be entertained after examination.***

सामान्य निर्देश :

(i) प्रश्न पत्र में कुल **20** प्रश्न हैं।

(ii) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।



- (iii) प्रश्न संख्या 1 से 1-1 अंकों के पद्धति (I-XV) वस्तुनिष्ठ प्रश्न है।
- (iv) प्रश्न संख्या 2 से 9 तक अतिलघु उत्तरीय प्रश्न हैं तथा प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है।
- (v) प्रश्न संख्या 10 से 17 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं तथा प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है।
- (vi) प्रश्न संख्या 18 से 20 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं तथा प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है।
- (vii) प्रश्न पत्र में समग्र स्लप से कोई विकल्प नहीं है। तथा 5 अंकों वाले तीनों प्रश्नों में आन्तरिक चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में से आपको दिए गए चयन से केवल एक ही प्रश्न करना है।
- (viii) कैल्क्युलेटर के उपयोग की अनुमति नहीं है। आवश्यक होने पर, लघुगणकीय सारणियों का प्रयोग किया जा सकता है।



(ix) जहाँ आवश्यक हो आप निम्नलिखित भौतिक नियतांकों के मानों का उपयोग कर सकते हैं :

$$c = 3 \times 10^8 \text{ m/s} \quad \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Tm A}^{-1}$$

$$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ JS} \quad \frac{1}{4\pi \epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2 \text{C}^{-2}$$

$$e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C} \quad m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$$

General Instructions :

(i) There are 20 questions in all.

(ii) All questions are compulsory.



(4)

(iii) Question number 1 consists of ~~Eleven~~ (i xv) objective type questions each of 1 mark.

2
3
4

(iv) Question Numbers 2 to 9 are very short answer type questions and carry 2 marks each.

5
6
7

(v) Question Numbers 10 to 17 are short answer type questions and carry 3 marks each.

8
9
10

(vi) Question Numbers 18 to 20 are long answer type questions and carry 5 marks each.

11
12
13

(vii) There is no overall choice. However, an internal choice has been provided in all three questions of 5 marks each. You have to attempt only **one** of the given choice in such questions.

(viii) Use of Calculators is not permitted, if required you may use logarithmic



tables.

(ix) You may use the following values of physical constants whenever necessary :

$$c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Tm A}^{-1}$$

$$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ JS} \quad \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2 \text{C}^{-2}$$

C53

$$e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$$



खण्ड - अर्द्ध

SECTION - A
C 5 A

[वस्तुनिष्ठ प्रश्न]

[Objective Type Questions]

3427

1. (i) पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक शून्य होता है :

(A) चुंबकीय ध्रुवों पर

(B) भौगोलिक ध्रुवों पर

(C) प्रत्येक स्थान पर

(D) चुंबकीय निरक्ष पर



The horizontal component of Earth's magnetic field is zero at :

(A) Magnetic poles

(B) Geographic poles

(C) Every Place

(D) Magnetic equatorial

(ii) यदि व्यतिकरण करने वाली दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात $16 : 9$ है, तो इनके व्यतिकरण प्रतिरूप में महत्तम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात है :(A) $4/3$ (B) $49 : 1$ (C) $25 : 7$ (D) $256 : 81$ 

The ratio of the intensities of two light waves is 16 : 9. The ratio of maximum and minimum intensities in their interference pattern will be :

(A) $4/3$

(B) $49 : 1$

(C) $25 : 7$

(D) $256 : 81$

(iii) प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के लिए निरोधी विभव निर्भर करता है :

(A) केवल आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर

(B) केवल कैथोड के पदार्थ पर

(C) आपतित प्रकाश की आवृत्ति व कैथोड के पदार्थ दोनों पर

(D) आपतित प्रकाश की तीव्रता पर

The stopping potential for photoelectrons depends upon :

(A) Frequency of incident light only

(B) Material of the cathode only

(C) Both the frequency of incident light and the material of the cathode

(D) Intensity of incident light

(iv) एक विद्युत-चुंबकीय तरंग में, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र में कलान्तर होता है :

(A) 0

(B) $\pi/4$

(C) $\pi/2$

(D) π

In the electromagnetic wave, the phase difference between electric field and magnetic field is :

- (A) 0 (B) $\pi/4$

- (C) $\pi/2$ (D) π

(v) प्रत्येक 40 वॉट के दो विद्युत् बल्बों को श्रेणीक्रम में जोड़ा गया है। संयोजन द्वारा शक्ति की खपत होगी : 1

- (A) 20 वॉट (B) 60 वॉट

- (C) 80 वॉट (D) 100 वॉट



Two electric bulbs of 40 watt each are connected in series. The power consumed by the combination will be :

- (A) 20 watt (B) 60 watt

- (C) 80 watt (D) 100 watt

C53427



(8)

228/(Set : C)

(vi) m द्रव्यमान का कण v चाल से गतिमान है, तो इससे संबंधित डेब्रोग्ली तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखिए। 1

A particle of mass m is moving with a velocity v . Write down the formula for the de-Broglie wavelength associated with the particle.


(vii) ट्रांसफार्मर में लोह क्षय (iron loss) क्या होता है ? 1

What are iron losses in a Transformer ?


C53427



(viii) दिये गये चित्र में सन्धि डायोड D अग्र अभिनत है अथवा उक्तम अभिनत ? 1



Is the Junction diode D is forward or reverse biased in the given diagram ?



228/(Set : C)



(ix) एक लेंस की क्षमता +5D है। लेंस की फोकस दूरी लिखिए। 1

The power of a lens is + 5D. Write the focal length.

(x) क्रमानुसार 27 और 64 द्रव्यमान संख्याओं ³⁴²₃₄₂ के दो नाभिकों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। 1

Calculate the ratio of the radii of two nuclei of mass numbers 27 and 64 respectively.

(xi) एक विद्युत द्विध्रुव के कारण इसका विद्युत क्षेत्र ³⁴²₃₄₂ सममित होगा। 1

The electric field due to an electric dipole is ³⁴²₃₄₂ symmetric.



(xii) 5×10^5 Hz से 10^9 Hz तक आवृत्ति परास की विद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती हैं। 1

The electromagnetic waves of frequency range from 5×10^5 Hz to 10^9 Hz are called

(xiii) एक तार जिसका प्रतिरोध $2 \mu\Omega$ है, की चालकता होगी । 1

The conductance of a wire of resistance $2 \mu\Omega$ is



(10)

(xiv) 220 V a. c. का शिखर मान है |

1

The peak value of 220 V a. c. is |

53427

(xv) a. c. परिपथ का शक्ति गुणांक का मान है $\cos \phi = \dots \dots \dots$ |

1

The power factor of an a. c. circuit is given by $\cos \phi = \dots \dots \dots$

53427

खण्ड - ब

SECTION - B

[अतिलघु उत्तरीय प्रश्न]

[Very Short Answer Type Questions]




2. विद्युत फ्लक्स (प्रवाह) के लिए गाउस का नियम क्या है ?

2


What is Gauss's law for electric flux ?

3. वित्र में संधारित्र C की धारिता निकालिए जबकि P और Q के बीच तुल्यांक धारिता $30 \mu\text{F}$ है।

2



Calculate the capacitance of the capacitor C in diagram. The equivalent capacitance of the combination between P and Q is $30 \mu\text{F}$.
 C53427



4. किरचोफ के संधि नियम का वर्णन करें।

2

Explain Kirchhoff's Junction rule.



5. दिक्षात कोण व नमन कोण पद को परिभ्राष्ट कीजिए।

2

Define the term angle of dip and declination.

6. सूक्ष्म-तरंगों एवं गामा-किरणों के दो-दो उपयोग लिखिए।

2

Write **two** uses each of microwaves and Gamma rays.

C53427

7. पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परिभ्राष्ट करें।

2

Define Total Internal Reflection.



(12)

8. रदरफोर्ड के α -कण प्रकीर्णन प्रयोग में ऐतम्ब कण की गतिज ऊर्जा तथा इसकी नाभिक से सम्पीड़नम् दूरी संबंध लिखिए।

C53427

Write the relation between kinetic energy of α -Particle and its distance of close approach from nucleus in Rutherford's α -scattering experiment.

C53427

9. दो p-n सन्धि डायोड को पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में सरल परिपथ चित्र बनाइए। निवेश, निर्गत तरंग रभी बनाइये।

Draw the circuit diagram of a full wave rectifier using two p-n Junction diode.
Draw input, output wave form also.



खण्ड - स

SECTION - C

[लघु उत्तरीय प्रश्न]

[Short Answer Type Questions]

10. किसी एकसमान आवेशित पतले गोलीय खोल के अन्दर किसी विन्दु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E के लिए व्यंजक निकालिए।

C53427

3

Find the expression for electric field intensity E due to uniformly charged spherical shell at a point inside the shell.



11. विभवमापी का सिद्धान्त समझाइए। विभवमापी वोल्टमीटर से किस प्रकार अच्छा है ? 3

Explain the principle of potentiometer. How is potentiometer superior to that of a voltmeter ?

12. चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहिता एवं विभव सुग्राहिता को परिभ्रष्ट कीजिए। एक धारामापी को अधिक सुग्राही कैसे बनाया जा सकता है ? 3

Define current sensitivity and voltage sensitivity of a moving coil galvanometer.
How can a galvanometer be made more sensitive ?

13. बायो-सावर्ट नियम का कथन लिखिए। इसका गणितीय रूप भी लिखिए। 3

State Biot-Savart's Law. Write its Mathematical form.

14. भंवर-धाराएँ क्या होती हैं ? भंवर-धाराओं के कोई दो अनुप्रयोग बताइए। 3

What are Eddy currents ? Write any two applications of Eddy currents.



15. एक प्रतिरोध 12 ओम, एक धारितीय प्रतिधात 14 ओम तथा एक प्रेरकीय प्रतिधात 30 ओम के 230 वोल्ट, 50 Hz की सप्लाई में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। गणना करें :

(i) प्रतिबाधा व

(ii) परिपथ में विद्युत् धारा 3

A resistor of 12 ohm, a capacitor of reactance 14 ohm and an inductor of reactance 30 ohm are joined in series and placed across a 230 V, 50 Hz supply.

Calculate :

(i) Impedance and

(ii) Current in the circuit



16. दो कला-संबद्ध स्रोतों द्वारा किसी यथेच्छ बिन्दु पर संपोशी तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए कलान्तर ϕ क्या शर्तें निभाएगा ? गणितीय रूप से प्राप्त करें। 53427 3

Derive mathematically the conditions for constructive and destructive interference at an arbitrary point due to coherent sources in terms of phase difference ϕ .

17. आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत् समीकरण का उपयोग करते हुए निरोधी विभव पर आपतित विकिरण की आवृत्ति के प्रभाव का वर्णन करें। 3427 3

Using Einstein's photoelectric equation, explain effect of frequency of incident radiation on stopping potential. <https://www.haryanaboard.com>



खण्ड - D

SECTION - D

[दीर्घ उत्तरीय प्रश्न]

[Long Answer Type Questions]

18. हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए तथा इसके आधार पर परावर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। 53427 5

Write Huygen's principle of secondary wavelets, and use it to explain law of reflection of light.

(15)

228/(Set : C)

अथवा

OR

मधुकर मूल्यदाती का नामांकित किए आगे बनाइए तथा इसकी प्रावधान स्थपता का मूल ज्ञान कीजिए। तब
उन्नियम प्रतिविक्षय दृष्टि की व्यूनतम दूरी पर बनाते हैं।

5

Draw the ray diagram of a compound microscope and obtain an expression for the magnifying power of microscope, when final image is formed at the least distance of distinct vision.

19. अब्द स्थिरांक व अर्धायु की परिभाषा लिखकर इनमें संबंध स्थापित कीजिए।

5

Define decay constant and half life and derive a relation between them



अथवा

OR

रेडियोऐक्टिव क्षय के नियमों का वर्णन करें तथा इनका उपयोग करके इसके लिए समीकरण स्थापित करें।

5

Explain the laws of radioactive decay. Derive an equation of radioactive decay using these laws.

C5342

228/(Set : C)



P. T. O

20. आवश्यक परिपथ की सहायता से वर्णन कीजिए कि CE विन्यास में कोई p-n-p ट्रांजिस्टर किस प्रकार किस लघु ज्या वक्रीय निवेशी वोल्टता का प्रवर्धन करता है ?

With the help of necessary circuit diagram, describe briefly how p-n-p transistor in CE configuration amplifies a small sinusoidal input voltage.

अथवा

OR

किसी n-p-n ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ उत्सर्जक (CE) विन्यास में अधिलाक्षणिक वक्रों का अध्ययन करने के लिए परिपथ आरेख बनाइए। इस विन्यास में प्रस्तुपी (i) निवेश ज्या (ii) निर्गत अधिलाक्षणिकों को दर्शाइए। इन अधिलाक्षणिकों की सहायता से निवेश प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए।



Draw the circuit diagram for studying the characteristics of an n-p-n transistor in common emitter configuration. Sketch the typical (i) Input and (ii) Output characteristics in this configuration. With the help of these characteristics define input resistance.

— — — — —